



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

31 दिसंबर 2024

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा ब्याज दरें – दिसंबर 2024

दिसंबर 2024 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा ब्याज दरों के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

मुख्य बातें:

ऋण दरें:

- एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) नवंबर 2024 में 9.40 प्रतिशत (अक्टूबर 2024 में 9.54 प्रतिशत) रही।
- एससीबी के बकाया रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएलआर नवंबर 2024 में 9.89 प्रतिशत रही।¹
- एससीबी की एक वर्ष की माधिका निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) दिसंबर 2024 में 9.00 प्रतिशत पर यथावत रही।
- एससीबी के कुल बकाया चल दर रुपया ऋणों में बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दर (ईबीएलआर) से जुड़े ऋणों की हिस्सेदारी सितंबर 2024 के अंत में 59.4 प्रतिशत (जून 2024 के अंत में 57.9 प्रतिशत) थी, जबकि एमसीएलआर से जुड़े ऋणों की हिस्सेदारी 36.9 प्रतिशत (जून 2024 के अंत में 38.2 प्रतिशत) थी।¹

जमा ब्याज दरें:

- एससीबी की नई रुपया मीयादी जमाओं पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा ब्याज दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) नवंबर 2024 के अंत में 6.46 प्रतिशत रही (अक्टूबर 2024 में 6.44 प्रतिशत)।
- एससीबी की बकाया रुपया मीयादी जमा पर डब्ल्यूएडीटीडीआर नवंबर 2024 के अंत में 6.98 प्रतिशत (अक्टूबर 2024 के अंत में 6.96 प्रतिशत) रही।¹

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1828

अजीत प्रसाद
उप महाप्रबंधक (संचार)

¹ बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है।